



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

साइरियल प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

*Published by Authority*

**भाद्र 27, बुधवार, शाके 1941–सितम्बर 18, 2019  
Bhadra 27, Wednesday, Saka 1941–September 18, 2019**

**भाग 6 (क)**

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 09, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9486** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Deshnok has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Deshnok. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका मंडल देशनोक बीकानेर

**प्रपत्र क**

क्रं. स.	नगर पालिका का नाम	पूर्व में गठित वार्डों की संख्या	वर्तमान नवगठित वार्डों की संख्या
1	नगर पालिका देशनोक	20	25
वार्ड स.			नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण वार्ड वाइज
1	राजा बाई के मकान से रेल्वे गेट तक, रेल्वे गेट से रेल्वे लाईन होते हुए पश्चिम होते हुए गणेशाराम का बाड़ा लेते हुए पेनोरमा नेहड़ी मन्दिर होते हुए वापस नेहड़ी रोड होते हुए सामुदायिक भवन को लेते हुए राजा बाई के मकान तक		
2	बरकत जी मास्टर के मकान से एनएच 89 होते हुए जेगला रोड तक, जेगला रोड से नन्दी गौशाला लेते हुए नेहड़ी जी मंदिर के पूर्व तक, नेहड़ी मंदिर से बरकत जी मास्टर के मकान तक व नेहड़ी रोड से पूर्व की दिशा वाला भाग		
3	पुरानी चुंगी नाका होते हुए घनश्याम महाराज के होटल होते हुए आरटीडीसी को लेते हुए पुराना रोशनीघर लेते हुए छगन जी खत्री के मकान तक, छगन जी खत्री के मकान से करणी मंदिर लेते हुए करणी सागर कुंए तक, करणी सागर कुंए से पुलिस थाना होते हुए मनुज देपावत सर्किल, नगर पालिका, हनुमान जी मंदिर होते हुए करणी मण्डल तक करणी मण्डल से एफसीआई रोड लेते हुए सीधे पुराने चुंगी नाके तक		
4	सेन मन्दिर से होते हुए रामचन्द्र जी साध के मकान से प्रकाश सुराणा की दुकान होते		

	हुए डालचन्द भूरा के मकान होते हुए नथमल सुराणा के मकान के पीछे की गली लेते हुए बालचन्द भूरा का मकान लेते हुए नृसिंगों का बास शामिल करते हुए मगदान के घर होते हुए पप्पु की दुकान एन.एच.89 से पेट्रोल पम्प से प्रयाग दास जी का बाड़ा लेते हुए एफसीआई रोड होते हुए सैन मन्दिर तक
5	भूरा पंचायती भवन से करणी मंदिर रोड की तरफ सुखदान जी का मकान होते हुए आसु डाकोत का मकान तक,आसु डाकोत के मकान से उजीरदिन के मकान से होते हुए नृसिंहदास मोहता के मकान होते हुए बालिका स्कूल होते हुए जगन्नाथ खत्री की दुकान तक,जगन्नाथ खत्री की दुकान से तेलियों की गली लेते हुए अनारदीन की दुकान तक,अनारदीन की दुकान से जैन जवाहर मण्डल से बाबोसा हनुमान मंदिर होते हुए होते हुए भूरा पंचायती भवन तक
6	प्राईमरी स्कूल से पूर्व में भोमियों जी केल लेते हुए पेम जी मोहता के बाडे तक,पेम जी मोहता के बाडे से उत्तर में चलते हुए पुनम जी सुथार के मकान लेते हुए बालु जी ब्राह्मण,हंसा महाराज, रामेश्वरलाल जनागल की चक्की होते हुए संतोष सिपाणी के मकान को लेते हुए सीधे सदर बाजार रेगरों की दुकान तक,रेगरों की दुकान से हास्पीटल सीनीयर स्कूल लेते हुए प्राईमरी स्कूल तक
7	दादा बाड़ी से माधोदान जी होटल को लेते हुए गौशाला होते हुए खेल मैदान तक खेल मैदान से पूर्व की तरफ भीखदान सियावत के मकान को लेते हुए हरिजन बस्ति को लेते हुए नेमा दर्जी के मकान से रमेश शर्मा के मकान को लेते हुए जयकिशन महाराज के मकान को लेते हुए दादा बाड़ी तक
8	बुलाकी महाराज के मकान से ब्राह्मण पंचायती लेते हुए बिरमाराम सुथार गोलछों का मकान लेते हुए पुनम सुथार के मकान के सामने वाली गली लेते हुए कुम्हार मौहल्ला लेते हुए सुखदान जी सियावत के बाडे तक,सुखदान जी सियावत के बाडे से कुम्हार मौहल्ला लेते हुए बालूराम जी ब्राह्मण के मकान तक, बालूराम जी ब्राह्मण के मकान से रेगरों की गली सम्मिलित करते हुए बुलाकी महाराज के मकान तक
9	राजू मोहता के मकान से नृसिंह जी मोहता का मकान जेतराम जी मंदिर सोहन महाराज के मकान तक, सोहन महाराज के मकान से माणक दर्जी,धर्म जी बाफना के मकान को लेते हुए किसना महाराज के मकान लेते हुए हरि ब्राह्मण के मकाने को लेते हुए (जो कॉस्ट स्कूल के सामने हैं) हरि ब्राह्मण के मकान से ओम जी मुंधडा का बाड़ा लेते हुए छोटमल जी मुंधडा का बाड़ा लेते हुए पन्ना महाराज का घर,मेघसिंह मास्टर का घर लेते हुए,भागीरथ चांडक का घर भंवर जी आंचलियां का घर,धूडचन्द जी का घर होते हुए पुनम जी कन्दोई के मकान तक, पुनम जी कन्दोई के मकान से टावर को लेते हुए सुरती बाई मंहत जी का मंदिर होते हुए राजू मोहता के मकान तक
10	मोती रेगर के मकान से हेते हुए वाटर वर्क्स के आफिस को सम्मिलित करते आरण तक गुन्दी धोरा से सुमेरदान का बाड़ा छोड़ते हुए पुरखाराम के घर से आगे की और होते दक्षिण की और मुड़ते हुए रतनाराम का मकान प्रकाश का मकान चेयरमेन साहब रामदेव जी का नया मन्दिर ओसवाल शमशान से मोती रेगर मकान तक

11	मून्धडा बाड़ा से लेकर जेठाराम मेघवाल की दुकान मकान से पूर्व की और रामराम का मकान भगवान जी का मकान लेते हुए उत्तर की कलाराम नायक का मकान पूरखाराम के घर तक सूमेरदान चारण का बाड़ा से पश्चिम की और पूरखाराम का मकान आसूराम का मकान शिवजी का मकान लेते हुए डीपी मोती महाराज गंगादास साध का घर कास्ट स्कूल धनाराम रेगर गणपत रेगर जेठदान चारण का मकान कैलाशदान का बाड़ा से मून्धडा कुआं तक
12	इंगरोतों के खन्देडे से मून्धडां कुंए की तरफ से चलते हुए बख्शीराम जी मून्धडा के बाडे के सामने वाली गली लेते हुए सुरजदान जी का मकान लेते हुए बालूदान जी के मकान तक, बालूदान जी के मकान से लालदान जी का बाड़ा, प्रदीप जी पटवारी के मकान, अम्बादान मास्टर के मकान को लेते हुए इंगरोतों के खन्देडे तक और विजयदान और मूलकरण दान का मकान से मून्धडा का पूराना बाड़ा महेन्द्र मून्धडा का मकान मून्धडा का बाड़ा नारायणराम का मकान तक
13	डेरे जी के मंदिर से लेकर लक्ष्मीनारायण मून्धडा मकान मून्धडा मंडी मोहन जी मून्धडा के मकान लेते हुए देवीसिंह के मकान को लेते हुए कैलाश महाराज के मकान को लेते हुए शंकरदान टिकायत के मकान को लेते हुए इंगरोतों खन्देडे के पश्चिम सीमा होते हुए जेठमल आंचलियां गोपाल सांखी का मकान लेते हुए तोलाराम डोसी का मकान लेते हुए लूणिया गोल गद्वा लेते हुए डेरे जी के मंदिर तक
14	झूमरमल नाहटा के मकान से डोसी गेस्ट हाउस लेते हुए काशीराम ब्राह्मण का मकान लेते हुए लणिया बाड़ा लेते हुए चिलोलाई तलाई लेते हुए डुंगरोतों के खन्देडे से जो नाला चलता हैं वह लेते हुए तेमेडे जी मन्दिर तक राजू उपाध्याय के मकान को लेते हुए नारायणराम के मकान लेते हुए दुर्गा महाराज के मकान को लेते हुए हंसाराम के मकान को लेते हुए दीनदयाल के मकान को लेते हुए छगनदादा गोपालदास साध चम्पालाल नाई पुरखाराम सुथार के मकान को लेते हुए पुरखाराम के बाड़ तक वहां से किसन सेवग के मकान को लेते हुए महावीर सांड लिखमीचन्द सांड के मकान को लेते हुए झूमरमल नाहटा के मकान तक
15	भंवर जी बैंक वाले के मकान से लेते हुए सुरेन्द्र फीटीआई के मकान को लेते हुए गीगासर सड़क तक गीगासर सड़क होते हुए रेवन्तदान के मकान को लेते हुए रामलाल नाहटा बाडे तक नाहटा बाडे से सन्तु महाराज के मकान लेते हुए नारायण जी की चक्की तक वहां से मनोज के मकान को लेते हुए भंवरदान के मकान मेगराज नाई मोहनदान चारण हनुमानदान, सवाईदान को लेते हुए शिवकरणदान के मकान को लेते हुए भंवरदान के मकान तक
16	आसु जोशी के मकान से लिखमाराम ब्राह्मण के मकान को लेते हुए ब्राह्मण हवेली तक वहां से भंवरमहाराज बद्री नाई हनुमान नाई तोला नाई के मकान को लेते हुए हनुमान नाई के मकान तक वहां से केदार महाराज किसु नाई के मकान को लेते हुए सुरजाराम ब्राह्मण के मकान होते हुए गीगासर रोड तक वहां से दुर्गाबाई व मेघवाल पट्टा रामदेव जी मन्दिर लेते हुए भंवर मेघवाल के मकान तक वहां से जाम्बोलाई खन्देडा होते हुए साध शमशान छोड़ते हुए हरिराम जी मन्दिर केवल सुथार बद्री सुथार

	को लेते हुए आसु जोशी के मकान तक
17	सोहन जी बोथरा के मकान से भंवर जी सुराणा के मकान होते हुए रामदेव जी मंदिर होते हुए शिव स्वामी की दुकान से विश्वकर्मा की मंदिर होते हुए शिवनारायण जी नाई के मकान होते हुए साध शमशान को सम्मिलित करते हुए रामेश्वर ढोली के मकान तक, रामेश्वर ढोली के मकान से गणेश ढोली के मकान को लेते हुए बागदान की दुकान को लेते हुए गोमदराम सुथार के मकान तक, गोमदराम सुथार के मकान से राठी कुआं से रामचन्द्र नाई के मकान से गेनाराम ब्राह्मण के मकान होते हुए माणक जी कन्दोई, लखु जी कन्दोई के मकान को लेते हुए सोहन जी बोथरा के मकान तक
18	हनुमान जी मोहता की दुकान से अणदु महाराज के मकान से लाल जी मास्टर के मकान से नन्दू गुलगुलिया के मकान से बरडियों के मकान को लेते हुए भंवरलाल आंचलियां के मकान से धर्मचन्द्र नाहटा के मकान से माणकचन्द्र लूणिया के मकान से सुगना महाराज के मकान से सोम प्रकाश नाहटा के मकान से सत्यनारायण जी के मंदिर से सांडों की मंडी से देशवालों के मकान से मोहन जी कातेला की दुकान होते हुए रामनाथ जी खत्री की दुकान को लेते हुए तारू जी दर्जी दुकान पदु जी खत्री की दुकान से शिव अग्रवाल जी दुकान को लेते हुए हनुमान जी मोहता की दुकान तक
19	तुलछाराम जी मोची के मकान से मोचियों की गली होते हुए दाउजी मोटी के मकान, तारजी मोहता के मकान को लेते हुए धन्नादान सियावत के मकान होते हुए मदन महाराज के मकान तक, मदन महाराज के मकान से सीतू जी दर्जी का मकान, ईश्वर जी दर्जी का मकान, रेखाराम ब्राह्मण के मकान तक, रेखाराम के मकान से हरिबाबु दर्जी, केवल जी दर्जी, पदमजी नाहर के मकान को लेते हुए जुग जी खत्री के मकान तक, जुग जी खत्री के मकान से सदर बाजार होते हुए बाबु काका कन्दोई, तेरापंथी भवन, हाजी बुन्दू खां के मकान को लेते हुए तुलछाराम जी मोची के मकान तक
20	हनुमान जी भूरा की दुकान से सदर बाजार होते हुए नसीर पिंजारा, गौरी सारडा की दुकान, प्रह्लाद सारडा का मकान होते हुए गोकल जी सारडा के बाडे तक, गोकल जी सारडा के बाडे से गंदी गली लेते हुए कातेला मरोठी गली लेते हुए छगनमहाराज की चक्की वाली गली के सामने वाले मकान लेते हुए तापडिया स्कूल लेते हुए रामकिशन किलेदार के मकान होते हुए गोकुल की डिपो होते हुए सलीम बाडा होते हुए लालदान का मकान लेते हुए जगदीशदान की के मकान से नृसिंह खत्री के मकान होते हुए हनुमान भूरा की दुकान तक
21	गणेश नाई की दुकान से नन्दू महाराज के मकान को लेते हुए बट्री महाराज राहु जी सुथार, मोहन ब्राह्मण के मकान को लेते हुए बाबु सुथार के मकान को लेते हुए महेशदान जी के मकान को लेते हुए लाहौर व सुथार मौहल्ला सम्मिलित करते हुए नखत बन्ना जी के मंदिर तक, नखत बन्ना जी के मंदिर से बागोलाई के पूर्व में होते

	हुए नाहतों का मकान लेते हुए नथमल सुराणा के बाडे तक, नथमल सुराणा के बाडे से तेलियों के खन्देडे होते हुए रूधनाथ जी का मंदिर से लक्ष्मणदान पूर्व पार्षद के मकान को लेते हुए रणछोडदास राठी के मकान से नारायण जी मास्टर के मकान से छगन महाराज की चक्की होते हुए गणेश नाई की दुकान तक
22	चम्पाबाई के मकान से हनुमान जी हीरावत का मकान होते हुए कानदान का मकान होते हुए भंवरदान का मकान बागोलाई वाली नाले वाली गली लेते हुए लालदान का मकान शामिल करते हुए अनारदीन का मकान लेते हुए गीगासर रोड तक गीगासर रोड से नसीर जी ढाणी से भंवरदान का बाड़ा से राजू दुर्गड का मकान पोकरराम सोनार के मकान से दाउ जी की दुकान से होते हुए तेमडाराय मंदिर के बगल से पुरानी मस्जिद लेते हुए चम्पाबाई के मकान तक
23	इन्द्रचन्द्र भूरा के मकान से धुड जी की चक्की होते हुए करणीदान जी के मकान होते हुए उत्तम भूरा की दुकान होते हुए हीरावत गेस्ट हाउस से प्रेम जी भूरा, गंगाराम सोनार, गणपतराम सोनार, शिवजी सोनार, नेमजी सोनार, बिजू सोनार, मोतीलाल जी दुर्गड के मकान को लेते हुए गिरधारी जी लुणिया सामसुखा की हवेली लेते हुए तोलाराम जी सुराना, खेम जी सुराना का मकान लेते हुए इन्द्रचन्द्र भूरा के मकान तक
24	केसु नाई के मकान से आनन्दमल भूरा, सुखाराम नाई, रतनलाल भूरा, हुलास जी सुराणा का मकान लेते हुए भंवरलाल सुराणा का बाड़ा व मकान लेते हुए अशोक का मकान रामलाल सामसुखा का मकान, रीख जी नाई, घेर जी सुराना, रामसिंह, मोहन भूरा, दुर्गडँ का बाड़ा लेते हुए जाट मोहल्ला शामिल करते हुए दुर्गड स्कूल होते हुए दोनों बिजलीघरों को लेते हुए एन.एच.89 होते हुए बुलाकी महाराज का कांटा लेते हुए केसु नाई के मकान तक।
25	सुखदान की प्याउ से रेल्वे गेट तक, रेल्वे गेट से उत्तर दिशा में चलते हुए इन्द्रा कॉलोनी को लेते हुए भैरू जी मंदिर से फायर स्टेशन तक, फायर स्टेशन से हाईवे होते हुए सुखदान जी की प्याउ तक

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका देशनोक

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।